Reg. No. :- JH-11-0004329

अपेम लाइव न्यूज

(Art, Agriculture, Press & Education, Health Management)

(अपेम ट्रस्ट के अंतर्गत बरही से संचालित एवं प्रसारित, Reg. No. :- 2020/BAR/80/BK/01)

दैनिक संध्या डिजीटल अखबार | सच का साथी | दिनांक 07-04-2022 | अंक 190

Website- www.apemlive.com संपर्क सूत्र 9550809864,9934337941,8969504178 Email Id- liveapem@gmail.com

संपादकीय

ज्पजसम क्या ब्रह्माण्ड के रहस्य -- स्वर,ऊर्जा,स्पंदन और फ्रीक्वेंसी में निहित हैं?



डॉ अनिल कुमार

सउदी अरब

किब्बत

दरअसल पूरा ब्रह्माण्ड की सृष्टि ही स्पंदन (viberation)से ही हुई है।स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कहती है कि सृष्टि स्पंदन से ही अस्तित्व में आई है । 3 अरब 80 करोड़ साल पहले जब कुछ भी नही था तो सबसे पहले श्नादश यानी स्वर उत्पन्न हुआ और स्वर के मूल में स्पंदन है। क्वांटम थ्योरी भी यह कहती है कि सृष्टि के किसी भी पदा. र्थ का सूक्षतं इकाई इलेक्ट्रान नही बल्कि क्वार्क और लेपटोन हैं जो हमेशा स्पंदन में रहते है। आज जो भी ग्रह, तारे, गैलेक्सी और सारे celesteal objects ek= स्पंदन है और कुछ नहीं। जब अस्तित्व ही स्पंदन है और स्पंदन ही स्वर और फ्रीक्वेंसी के मूल में हैं तो प्रकृति की जो भी घटनाएँ घटित हो रही है उसके मूल में भी स्वर, स्पंदन और फ्रीक्वेंसी ही है। हर चीज़ की एक रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है और अगर उस रेसोनेंट फ्री. क्वेंसी को किसी यंत्र के सहारे उत्पन्न कर लिया जाए, तो वो हर कुछ संभव हो सकेगा जो आज हमें असम्भव लगता है। जैसे आपने मिश्र की पिरामिडों के बारे में सुना होगा,देखा होगा

जिसमें की कई कई टन वजन के बड़े बड़े पत्थर बिल्कुल सही जगह पर रखे हुए हैं और इन पत्थरों का कटाव ऐसा है जैसे किसी ने इन्हें लेज़र से काटे हों, और यह सब पाँच हज़ार साल पहले की बात है , जबकि उस समय मे आज के जैसे बड़ी –बड़ी मशीने उस वक्त में नही थीं। तो ये कैसे संभव हुआ होगा ? ऐसा माना जाता है जाता है की कोई यंत्र होगा जिसके स्पंदन और फ्रीक्वेंसी को पत. थरों के रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी से ट्यून करके पत्थरों को काटने और उसे उठाने का काम किया जाता था। सऊदी अरब में एक विशालकाय पत्थर है जिसे इतनी बारीकी से काटा गया है जैसे किसी लेज़र से काटा गया हो,आज भी तिबब्बत में कुछ विशेष तरह के स्वर यंत्र है जिन्हें कुछ मंत्रो के सहारे ट्यून करके विशालकाय पत्थरों को जमीन से उठा लिया जाता है। जिसे levitation भी कहा जाता है।मंत्र जो विशेष स्वरों से उत्पन्न होते है उनमें शक्ति इसलिए है क्योंकि वे एक विशेष स्पंदन और फ्रीक्वेंसी पैदा करती हैं जो ब्रह्माण्ड के भीतर भौतिक और अभौतिक दोनों प्रभाव पैदा करती हैं। निकोला टेस्ला के आविष्कार भी ऊर्जा, स्पंदन और फ्रीक्वेंसी पर आधारित रहे हैं। विश्व की लगभग सारी सभ्यताओं में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जिससे साबित होता है कि ऊर्जा, स्पंदन और फ्रीक्वेंसी को तकनीक के द्वारा साध कर ऐसे कार्य और संरचनाओं को मूर्त रूप दिया गया जो आज भी विज्ञान के लिए भी संभव नही

मारपीट में युवक घायल

बरही थाना अंतर्गत करसो निवासी राजा राणा उम्र 16 वर्ष पिता रवींद्र राणा मारपीट में घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा राणा बांस काटने गया था उसी दौरान कुछ लोगो ने उसके साथ मारपीट कर दिया जिसमे वह घायल हो गया। वहीं पीड़ित युवक को बरही अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया।

रूपेश पांडेय के पीड़ित माता पिता को मुख्यमंत्री ने सौपा पांच लाख का मुआवजा एवं नोकरी के लिए नियुक्ती पत्र

अपेम लाइव : बरही
सोनु पंडित

बरही प्रखंड के नईटांड़ निवासी दिवंगत रूपेश पांडेय के पीड़ित परिवार को दुःख दर्द बाट कर कभी न मिटने वाले जख्म मरहम लगाने का प्रयास किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरने गुरुवार को रूपेश पाण्डेय के माता-पिता सहित अन्य परिजनों से रांची में मुलाकात किया। जहा रूपेश की माँ को पांच लाख का चेक एवं नोकरी परमिशन का काग. जात सौपा। जानकारी के अनुसार रूपेश के मां को अंचल कार्यालय में चतुर्तवर्गीय कर्मचारी के रूप में हुई है। बता दे कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने को लेकर बरही विधायक उमाशंकर अकेला लगातार प्रयासरत थे, विधायक उमाशंकर अकेला के नेतृत्व में एक बार सूबे के तीन तीन सदस्य एवं अन्य विधायक स्व रूपेश पांडेय के घर तक भी पहुचे गुरुवार को पुनः उमाशंकर अकेला पीड़ित के परिवार मुख्यमंत्री से मिलाने को लेकर गए, जहा मुख्यमंत्री ने उनके पांच लाख का चेक व जॉब कार्ड सौपा एवं दोषियो को जल्द सजा मिले यह भी

रूपेश की मां को चेक वा नियुक्ति पत्र सौंपते मुख्यमंत्री हेमंत शोरेन

आश्वस्त किया। इस बाबत बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा मैं लगातार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हूं, विपक्षी पार्टियों द्वारा मात्र पीड़ित परिवार को दिग्भर्मित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, लेकिन मैं पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले दोषियो को सजा कैसे मिले कोई वेगुनाह फंसे न एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बना रहे विषय पर गंभीरता पूर्वक काम करता रहा, आज हमारी सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को पांच लाख का मुआवजा एवं एक नोकरी दी है, आने वाले समय मे पीड़ित परिवार को ओर अधिक लाभ कैसे मिले इस बात के लिए चिंतित है साथ ही सभी दोषियो को कठिन से कठिन सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबध है।

रामनवमी एवं ईद को लेकर बरही थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न

अपेम लाइव : बरही
सोनु पंडित

बरही थाना परिसर में गुरुवार संध्या 4 बजे रामनवमी एवं ईद को लेकर शांति समिति का बैठक बरही एसडीओ पूनम कुजूर के अध्यक्षता में किया गया। बैठक का संचालन बरही एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने किया। वहीं एस डीओ पूनम कुजूर ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी से आग्रह किया की सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश का पालन करते हुए रामनवमी मनाए साथ ही उन्होंने कहा की जुलूस में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं बरही एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने बैठक में आए सभी अखाड़ा के अध्यक्षों से आग्रह किया की राज्यसरकर के द्वारा जो भी निर्देश जारी किया गया है उसको देखते हुए रामनवमी पूजा मनाए साथ ही उन्होंने कहा की अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसपर बरही प्रशासन कठोरता से कार्रवाई करेगी। मौके पर बरही थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर रोहित सिंह, एस आई घनश्याम कुमार, एसआई सौरव आहूजा, एसआई दिनेश कुमार, एएसआई सुनील

तिवारी, बरही महिला थाना प्रभारी बबिता कुमारी, सांसद प्रतिनिधि अर्जुन साव, कांग्रेस जिला महामंत्री अब्दुल मन्नान वारसी, सद्भावना विकास मंच के अध्यक्ष राज सिंह चौहान, बरही पूर्वी जीप प्रतिनिधि मो कयूम, बरही मध्य जीप प्रति. निधि गणेश यादव, समाजसेवी भगवान केशरी, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रंजीत पांडेय, सुनील साहू, राजेश केशरी उर्फ मेवालाल, तौकीर अंसारी, टेकलाल यादव, मनोज कुमार, अर्जुन पंडित, दशरथ यादव, शिव कुमार राम, दिनेश प्रजापति, जानकी रजक, शिवा निषाद, मोहन प्रजापति सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।

डेस्क प्रभारीः बिरेन्द्र कुमार | सहयोगीः सोनू पंडित | एडिटरः सोनू पंडित | मैनेजिंग डायरेक्टरः डॉ० अनिल कुमार

दिनांकः 07-04-2022

सच का साथी

अपेम लाइव न्यूज

बरही से प्रकाशित एवं संचालित डिजीटल न्यूजपेपर

पेज संः 02

रामनवमी पूजा की तैयारी को लेकर सद्भावना विकास मंच की हुई बैठक

क्षेत्र में सभी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करना समझे अपना कर्तव्य : राजसिंह चौहान

अपेम लाइव : बरही
सोनु पंडित

आगामी रामनवमी पूजा के मद्देनजर चौपारण प्रखंड के साहू धर्मशाला में बुधवार को सद्भावना विकास मंच पुलिस मित्र की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से मंच के अध्यक्ष राज सिंह चौहान, सचिव कुंदन कुमार उपस्थित रहे। बैठक में सभी को रामनवमी पूजा में विधि व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस को सहयोग करने की बात कही गई। इस बाबत मंच के अध्यक्ष राज सिंह चौहान ने कहा क्षेत्र में रामनवमी पूजा शांति पूर्ण रूप से मनाया जाए, इसके लिए हम सभी को दायित्व बनाना होगा। अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए पुलिस प्रशासन से आपसी समन्वय बनाकर क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में नजर रखना होगा। आपके रहते क्षेत्र में कही किसी प्रकार का विध्न न उत्पन हो, इस दिशा में सभी को ध्यान देना होगा। मंच के सचिव कुंदन कुमार ने कहा कि कहीं भी किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न होने पर मंच के सदस्य पहले स्वयं उस स्थान पर जाकर शांति पूर्वक समझाए, जिसके बाद भी स्थिति सामान्य नही होती है तो अविलम्ब प्रशासन को सूचित कर स्थिति को नियंत्रित करे एवं क्षेत्र में रामनवमी पूजा शांति पूर्ण माहौल में सम्पन्न कराए। मौके पर चौपारण प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार दांगी, उपाध्यक्ष मनोज कुमार ऊर्फ बाबा, मो जियाउल, मो तौहीद, पायल देवी, सक्रिय सदस्य ज्ञानी तुरी, रिंकी कुमारी, रानी कुमारी, रिंकू कुमारी, वर्षा देवी, मौसम कुमारी, रिंकी देवी, रीता देवी, अनिल कुमार गुप्ता, मुकेश राणा, पप्पू कुमार केसरी, मनोज मंडल, संजू देवी, काजल देवी, कुमारी रंजना, सुनीता देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

झुमरीतिलैया में दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति की बैठक संपन्न

14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का लिया निर्णय

अपेम लाइव झुमरीतिलैया
धीरज कुमार

दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति जिला कमिटी कोडरमा की बैठक साहू धर्मशाला झुमरी तिलैया में समिति के जिलाध्यक्ष इंद्रदेव राम की अध्यक्षता में की गई। जिसमें अध्यक्ष ने विगत कार्यक्रमों का कार्य रिपोर्ट पेश किया। जिसे उपस्थित लोगों ने पास किया। बैठक में भारत रत्न बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की जयंती जिले में धूमधाम से मनाने पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब ड०. भीमराव अंबेडकर की जयंती झुमरीतिलैया में मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर जिप सदस्य महादेव राम ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने से नहीं बल्कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों व वंचितों के लिए कई कानूनी प्रावधान किया है। जिससे आज शत-प्रतिशत लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं जिला अध्यक्ष इंद्रदेव राम ने कहा कि बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए गांव-गांव में बैठक करें तथा लोगों को एकजुट करने का काम करें। उन्होंने कहा कि बाबा साहब दलितों के लिए मसीहा थे। बैठक को संबो. धित करते हुए दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के जिला उपाध्यक्ष प्रकाश रजक ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब ड०क्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज में बदलाव नहीं होगा। समाज को बदलने के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता है। श्री रजक ने कहा कि कोडरमा जिले में कमजोर वर्गों पर जुर्म बढ़ रहा है। पुलिस राजने. ताओं के दबाव में आकर कमजोर वर्गों को मदद ना पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति कोडरमा जिले में सभी प्रखंडों में पंचायत से लेकर प्रखंड तक अभियान चलाकर दलितों को जागरूक करेगी। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज रजक ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान को बदलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दलितों को संगठित होकर सड़क पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। बैठक में विजय रजक, संजय कुमार दास, प्रेम प्रकाश, राजू तुरी, विनोद राम, मुखिया धीरज कुमार, बैजनाथ दास, मनोज दिवाकर, सिकंदर कुमार, कैलाश रजक, अरुण पा. सवान, डोमचांच प्रखंड अध्यक्ष नकुल दास, रंजन कुमार रजक, ओम प्रकाश दास, सुनील कुमार दास, भोला तुरी, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विकास कुमार दास, मनोज दास, शंभू पासवान, राजेंद्र दास, जयनगर प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास, भोला दास, महेंद्र दास, रंजीत कुमार, सोनू दास, सरस्वती देवी, रूमा देवी आदि लोग मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन विनोद राम ने किया।

बरही में चैती छठ पूजा श्रद्धा से साथ मनाई गई, श्रद्धालुओं ने अस्तचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

अपेम लाइव : बरही
सोनु पंडित

सूर्य को अर्घ्य देते श्रद्धालु

बरही में चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मानयी जा रही है। गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बरही के प्राचीन नदी घाट एवं सूर्यम. न्दिर नदी घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। महिला पुरुष बच्चे बुजुर्गों ने सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिवसीय चौथी छठ का समापन होगा। सूर्यमन्दिर नदी घाट पर पंडित ने विधि विधान के साथ पूजा कराई। मौके पर शिव शंकर लाल, दयानंद चौरसिया, सोनू, मोनू, उषा रानी, कृति चौरसिया,पंकज कुमार, मुखिया मनोरमा देवी, रमेश ठाकुर, सुरेश शर्मा, संजय शर्मा ,कुमार कृष्णन, रत्न कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।

कांटी पंचायत में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुखिया ने उपायुक्त को दिया आवेदन

शिक्षकों की कमी तथा जर्जर भवन से बच्चों के पठन-पाठन में हो रही है परेशानी – रमेश प्रसाद

अपेम लाइव चंदवारा
धीरज कुमार

रमेश प्रसाद

मध्य विद्यालय कांटी के जर्जर भवन

प्रखंड क्षेत्र के कांटी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के बच्चे मौत के साये में पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय के पुराने भवन जर्जर भवन में पढ़ते हैं बच्चे। कभी भी हो सकती है अनहोनी। पंचायत के मुखिया रमेश प्रसाद ने तत्वरित संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले को लेकर कोडरमा उपायुक्त को आवेदन देकर जर्जर भवन की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए पंचायत क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। दिए गए आवेदन में उन्होंने मध्य विद्यालय कांटी तथा डिवीसी प्लस टू हाई स्कूल में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की कमी होने तथा मध्य विद्यालय कांटी के पुराने भवन की जर्जर स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि जर्जर भवन कभी भी गिरकर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय के बच्चों के पठन-पाठन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिलने से उनका भविष्य अंधकार खराब हो रहा है उन्होंने अतिरिक्त शिक्षकों को बहाल करने के साथ-साथ मध्य विद्यालय के जर्जर भवन को हटाकर नए भवन बनाने की मांग की है।

समाजसेवी का इलाज के दौरान निधन, शोक की लहर

अपेम लाइव : बरही
सोनु पंडित

मोहन साव

बरही प्रखण्ड अंतर्गत भंडारो पंचायत के बैरिसाल निवासी मोहन साव (55) की असामयिक निधन इलाज के दौरान रिम्स रांची में हो गई। जैसे ही निधन के समाचार गांव पहुंचा। पूरे गांव में मातम पसर गया। वे अपने पीछे 3 पुत्र एवं 3 पुत्री समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। मृतक के बड़ा पुत्र राजू साव ने मुखग्नि दिया। बराकर नदी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर पहुंचे बिनोद पासवान ने कहा कि मोहन साव सामा. जिक व्यक्ति थे। सामाजिक कार्यों में उनका भागीदारी रहती थी। अंतिम संस्कार में विनोद कुमार पासवान, सकलदेव यादव, भंडारों प्रधान सकलदेव यादव, बहादुर पासवान, कैलाश पा. सवान ,राजेश दास ,रवि कुमार ,अनिल रविदास, रा. जेंद्र यादव ,मुंशी यादव सहित कई लोग शामिल थे।

APEM LIVE

डेस्क प्रभारीः बिरेन्द्र कुमार सहयोगीः सोनू पंडित एडिटरः सोनू पंडित मैनेजिंग डायरेक्टरः डॉ० अनिल कुमार

सच का साथी
अपेम लाइव न्यूज
बरही से प्रकाशित एवं संचालित डिजीटल न्यूजपेपर

RAINBOW SCHOOL BARHI

RAINBOW SCHOOL BARHI
UID NO. 20040117202

Shivpur (Gadlahi), Barhi, Hazaribag
Contact Number- 8210966457,8863095445
(A Better Educated Generation, A Better Future For Our Nation)

ADMISSION OPEN NOW

Built a Bright Future for Your Child. Give Your Child Education of Heart & Soul

SALIENT FEATURES

- C.B.S.E. Pattern based Education (Upto Xth Class)
- Eco Friendly Environment
- Admission through Entrance Exam
- Highly Experienced & Qualified Teachers and Staff
- Beautifully Aesthetically Designed Campus
- Stress Free & Pollution Free Environment
- Smart Classes, Computer Lab
- Project Based learning Music and Dance room
- Indoor & Outdoor Games and Sports Facilities
- Counselling Programs For Students & Parents
- Preparation & Remedial classes for Extra Support
- Whole Campus under CCTV Surveillance
- Transport Facility available
- School offers scholarship to meritious students
- R.O. Purified water facility
- Well Stocked Library
- Separate Common room (Toilet) Facilities for Boys & Girls
- Sufficient & Airy Classrooms
- Remedial Classes for Co-Curricular Activities
- Well Organised Programs on 26th Jan & 15th Aug.
- Celebration of "Saraswati Puja" with great Enthusiam
- Regular Organised Exams Periodically
- Facilated with Medical Kit, Sports Goods & P.T. Drum

इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का विकास करना हैं, जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो राष्ट्रभक्ति से ओत–प्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो तथा जो जीवन की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके, उसका जीवन अन्य लोगों को शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो।

——— डायरेक्टर (सिकंदर प्र0 कुशवाहा) की कलम से

CHILDREN PROGRESSIVE SCHOOL

CHILDREN PROGRESSIVE SCHOOL PURHARA
विद्या ददाति विनयम्

Based on C.B.S.E & J.A.C Both Curriculum
CLASS : Nusery to VIIIth.
For Children's bright future.
(बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए)

नामांकन जारी है।

Our facilities :-

- नवोदय, नेतरहाट एवं सैनिक स्कूल की तैयारी।
- योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा कक्षा का संचालन।
- बच्चों को अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान।
- कमजोर बच्चों पर अलग से विशेष ध्यान।
- संगीत, नृत्य एवं खेल कूद की व्यवस्था।
- व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान।
- कम्प्यूटर एवं आतायात की सुविधा।
- गरीब,असहाय एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निः शुल्क शिक्षा की व्यवस्था।

इधर बच्चों की कुछ तस्वीर डाला जायेगा। (स्कूल जाने की अवस्था में)

Note: हमारे यहाँ कक्षा IXth और Xth का अनुभवी शिक्षकों द्वारा विशेष तयारी करवाई जाती है।

Smart Classes की सुविधा।

AT – PURHARA (BAIRISAL) BARHI, HAZARIBAG (JHARKHAND)
Mob. 9973278122, 9199197021

कपिल प्रसाद केशरी

वादा नहीं विकास करेंगे... जन-जन का सम्मान करेंगे...

बरही पश्चिमी से
पंचायत समिति प्रत्याशी पद हेतु
युवा, कर्मठ, जुझारू एवं ईमानदार
उम्मीदवार
कपिल प्रसाद केशरी
को अपना बहुमूल्य
मतदान देकर भारी मतों से
विजयी बनाएं...!

सोच हमारी
विकास आपका

कपिल प्रसाद केशरी भावी पंचायत समिति प्रत्याशी, बरही पश्चिमी

कुंती देवी

जोश है, होश है,
संकल्पों से यारी है

विकास,समृद्धि और खुशहाली
की बारी है

कुंती देवी
भावी जिला परिषद प्रत्याशी बरही पश्चिमी भाग (4)

तापेश्वर प्रसाद
सामाजिक कार्यकर्ता





दिनांकः 07-04-2022

सच का साथी

अपेम लाइव न्यूज

बरही से प्रकाशित एवं संचालित संध्या डिजीटल न्यूजपेपर

पेज संः 04

डिवाइन पब्लिक स्कूल में टीकाकरण हुआ

अपेम लाइव : बरकट्ठा
सुनिल कुमार

बरकट्ठा प्रखंड अंतर्गत गंगपाचो स्थित डिवाइन पब्लिक स्कूल में आयु वर्ग 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोरोना रोकथाम के लिए टीकाकरण किया गया । विद्यालय निर्देशक ने सभी बच्चों से अपील की है कि आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भी अपने आधार कार्ड के साथ जाकर टीक. ाकरण अवश्य करवा लें। उन्होंने बच्चों को टीकाकरण के महत्व को बताते हुए को. विड से बचाव हेतु टीकाकरण के साथ-साथ मास्क व सै. निटाइजर के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इस मौक़े पर विद्यालय के शिक्षक कमलेश कुमार भानुप्रताप सिंह, अनुराग कुमार सिंह, प्रीती प्रभा कुमारी, संजय यादव, विवेक कुमार, मनोज कुमार,आशीष कुमार, पूनम कुमारी, संजीव कुमार, तुलसी कुमार, महेश कुमार,अर्जुन प्रसाद, भीखों प्रसाद उपस्थित थे

सतगावां में छठ पूजा के मौके पर उमड़े श्रद्धालु, अस्ताचल सूर्य को दिया अर्घ्य

अपेम लाइव : सतगावां
संजीव कुमार

लोक आस्था का महापर्व चौती छठ पूजा पर गुरुवार को सतगावाँ में उत्सव जैसा माहौल रहा। मरचोई, उतरायण सकरी नदी, मैसरवा घाट ,नारायडीह, शिवपुर, माधोपुर, ईंटाय सहित कई जगह परंपरागत ढंग से श्रद्धालुओं ने अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देकर विधिवत पूजन किया। 2 घंटे तक चला धार्मिक आयोजन स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग नदी, तालाब के किनारे खड़े-खड़े पूजा पाठ का विधान देखते रहे. शुक्रवार की सुबह उगते सूरज को अर्घ्य और पूजन के साथ अनुष्ठान संपन्न होगा। सुबह से ही आयोजन स्थलों पर छठ पूजा घाट में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। फल-मिठाई पूजन सामग्री से भरी डलिया सिर पर रखकर लोग सपरिवार जल के समीप आए। पहले जल में स्नान कर सबने धूप दीप के साथ सूर्य की प्रार्थना शुरू कर दी। इस दौरान अस्ताचल की ओर जा रहे भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। यह क्रम सूर्यास्त होने तक चलता रहा मरचोई में पूर्व से हीं यज्ञ के आयोजन के कारण 3 किलोमीटर तक तोरण विद्युत झालरों से सजाया गया। नदी में उतरने के बाद सूखे स्थानों पर पूजा की वेदी और बैठने का स्थान बनाया गया था। शाम होते ही रंग-बिरंगी रोशनी और सुगंध से वातावरण खुशनुमा हो गया। श्रद्धालुओं की अगवानी के लिए बनाए गए मुख्य द्वार से आगे तक देर शाम तक भीड़ जमा रही। आस्थाविश्वास के छठ पर्व पर तमाम भक्त छठ छठ घाट से यज्ञ स्थल के यज्ञशाला के पूजा स्थल तक पहुंचे। उनकी सुविधा के लिए यज्ञ समिति की ओर पूजन का विशेष प्रबंध किया गया था। उल्लास के इस मौके पर हर कोई भक्ति की नजर में रंगा नजर आये. किसी ने ली सेल्फी तो किसी ने छोड़े पटाखे श्रद्धालुओंके साथ पूजन स्थल पर आए लोगों ने खूब मस्ती की। सूर्य आराधना के दौरान तमाम लोग मोबाइल से सेल्फी लेने में लगे रहे, जबकि बच्चों के साथ मिलकर बड़ों ने खूब पटाखे छोड़े। डीजे की धुन पर पा. रंपरिक गीतों पर युवाओं ने डांस भी किया।

शतचंडी महायज्ञ एवं हनुमत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नगर भ्रमण

डेस्क प्रभारीः बिरेन्द्र कुमार सहयोगीः सोनू पंडित एडिटरः सोनू पंडित मैनेजिंग डायरेक्टरः डॉ० अनिल कुमार

दिनांकः 07-04-2022

सच का साथी

अपेम लाइव न्यूज

बरही से प्रकाशित एवं संचालित डिजीटल न्यूजपेपर

पेज संः 05

तैयारी पूरी, बड़ा बाजार यूथ विंग के द्वारा रामनवमी के दिन 251 किलो लड्डू का किया जाएगा वितरण

कार्यक्रम को लेकर सभी पदाधिकारी एवं रामभक्त अति उत्साहित नजर आ रहे हैं :– चंद्रप्रकाश जैन

अपेम लाइव : हजारीबाग
रितेस खंडेलवाल

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव रामनवमी के पावन पर्व पर यहां पूरा हजारीबाग राम माय रहेगा तो वही बड़ा बाजार यूथ विंग के द्वारा रामनवमी 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार को सुबह 09 बजे से बड़ा बाजार चौक के सत्यनारायण मंदिर के समीप 251 किलो लड्डू का वितरण किया जाएगा जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है तो वही ढोल नगाड़ों के साथ प्रभु श्री राम को 11 किलो की एकमात्र लड्डू से भोग लगाया जाएगा। जिसके पश्चात सभी राम भक्तों एवं आम जनमानस के बीच लड्डू महाभोग का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि,वरिष्ठ समाजसेवी एवं कई गणमान्य लोग की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम को विशेष सफल बनाने में :– संरक्षक भैया अभिमन्यु प्रसाद, महासचिव चंद्रप्रकाश जैन, अध्यक्ष विशाल खंडेलवाल, सचिव सह कोषाध्यक्ष अमर जैन विनायका, उपाध्यक्ष रितेश खंडेलवाल,रुचि कुजूर, संजय कुमार डिश, संयोजक विकास केसरी, सहसंयोजक जयनंदन सिन्हा, बिट्टू बिहारी, निखिल खंडेलवाल,सन्नी देव, पीयूष खंडेलवाल, अमिता ताम्बी, बबलू शर्मा, अतिशय जैन सहित कई लोगों का कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान मिल रहा है। मौके पर महासचिव चंद्रप्रकाश जैन ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सभी पदाधिकारी एवं रामभक्त अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। मौके पर अध्यक्ष विशाल खंडेलवाल ने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला सदस्यों का भी विशेष योगदान मिल रहा है। मौके पर सचिव सह कोषाध्यक्ष अमर जैन विनायका ने कहा कि ढोल नगाड़ा के साथ प्रभु श्री राम को लगाया जाएगा महाभोग।

मलिकाना में पूर्व विधायक ने प्रवचन मंच का किया उदघाटन

जीवन मे खुशहाली लाना है तो धर्म के मार्ग पर चलना होगा : मनोज यादव

अपेम लाइव : चौपारण
किशोर राणा

बच्छई पंचायत के मलिकाना में आयोजित श्री श्री 1008 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीराम कथा के तीसरे सन्धा प्रवचन मंच का उदघाटन बरही के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। इस दौरान आयोजको ने पूर्व विधायक को माता का चुनरी देकर कार्यक्रम में स्वागत किया। वही पूर्व विधायक ने वृंदावन से आये प्रवचनकर्ता चित्रांशुक्ला को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि प्रवचन कर माध्यम से जो हमे बाते बतलाई जाती है उसे आत्मसात करने की जरूरत है। कहा जीवन मे अगर खुशहाली लाना है तो धर्म के मार्ग पर चलना होगा। धर्म हमे बतलाता है कि हम अच्छे कर्म करे, गलत रास्ते पर न चले, निर्धन लोगों को सहायता करें। धर्म का अर्थ सेवा भी है। गरीब व पीड़ित समाज का सेवा करना ही हमारा सच्चा धर्म है। कहा जिस भक्ति भाव से मलिकाना के ग्रामीण यज्ञ का आयोजन किये है निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद पूरे ग्राम वासियो पर बना रहेगा। इससे पूर्व यज्ञ समिति अध्यक्ष बिनोद साव, सचिव योगेन्द्र यादव, कोषाध्यक्ष शंकर दयाल साव व संरक्षक रामलाल प्रसाद ने अतिथियो को माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि बिरेन्द्र रजक, पैक्स अध्यक्ष सहदेव प्रसाद यादव, सिकेन्द्र रजक, अर्जुन साव, कृष्णा यादव, महाबीर साव, आंनद यादव, विकास गुप्ता, पुरन साव, राज. कुमार साव, जय नारायण साव, रवि कुमार, मुकेश गुप्ता, सहित अन्य

पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडीह,रेलवे ओवर ब्रीज के पास रेलवे पटरी पर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला युवक का शव

अपेम लाइव : गीरिडीह
बजरंगी महतो

आज गुरुवार को अहले सुबह गिरिडीह जिला के पचम्बा थाना अन्तर्गत तेलोडीह खुट्टा फुटब०ल मैदान के पास रेलवे ओवर ब्रिज के पास एक युवक की क्षत विक्षत लाश पड़ी मिली सुबह स्थानीय ग्रामीण जब म०र्निंग व०क पर निकले थे तो रेलवे पटरी पर लाश पड़ा हुआ देखा और शोर मचा दिया। साथ ही ईसकी सूचना स्थानीय तेलोडीह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सब्बीर आलम की दी ,सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि घटना स्थल पर पहुंचे, शोरगुल सुनकर आस पास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए, स्थानीय लोगों ने मृतक की पहचान तेलोडीह पंचायत के खुट्टा के जहांगीर अंसारी पिता मो. हम्मद मियां के दामाद असलम उर्फ मोदी उम्र 30 वर्षी के रूप में कि। मुखिया प्रतिनिधि ने इसकी सूचना पचम्बा थाना को दी, मौके पर पचंबा थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों के अनुसार मृतक अ०टो टेम्पू चलाकर अपनी परिवार का भरण पोषण करता था,जिसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी पत्नी दिव्यांग है,मृतक की माता पिता भी नही है,वह अपने ससुराल के पास ही रहते था।

नौकरी मिला, आर्थिक सहयोग मिला नही मिल रहा तो रूपेश को न्याय, कहाँ है हत्यारे

अपेम लाइव : चौपारण
किशोर राणा

बहुचर्चित रूपेश हत्याकांड मामला पिछले एक दो महीने से सदन से लेकर सड़क तक गूँजता रहा। रूपेश को न्याय दिलाने व पीड़ित परिवार के प्रति गहरी सवेदना प्रकट करने वालो का होड़ मचा रहा। रूपेश को न्याय मिले आर्थिक सहयोग मिले इसके लिए पूर्व सीएम रघुवर दास, बाबुलाल मरांडी, राज्य के मंत्री कमलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता समेत राज्य कई कई विधायक व पूर्व विधायक व केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी तक ने मामले को फुरजोर तरीके से उठाया। आखिर कर राजनीतिक दबाव कहे या राज्य सरकार की पीड़ित परिवार के प्रति सवेदना, सीएम हेमन्त सोरेन ने खुद से रांची स्थित सीएम अ०फिस बुलाकर रूपेश के माता जी को सरकारी नौकरी व पाँच लाख का आर्थिक सहयोग देकर राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश को कम करने का सार्थक प्रयाश किया। इन सबके बीच एक सवाल जो सबके जेहन में गूँजेगा, नौकरी मिला, आर्थिक सहयोग मिला लेकिन नही मिल पा रहा है तो दिवंगत रूपेश पांडेय को न्याय। हत्या के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आखिर पुलिस नामजत अन्य 23 अभियुक्त को पडकने में क्यों असमर्थ है। क्यों पूरा पुलिस सिस्टम रूपेश के हत्यारों तक पहुंच नही पा रही। एक मां को नौकरी, आर्थिक सहयोग मिल रहा है लेकिन उस माँ को सच्चा संतुष्टि तब मिलेगा जब उसके लाडले बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार कर कानून कड़ी से कड़ी सजा देगी। बहरहाल हम सब उम्मीद करेंगे कि आर्थिक सहयोग व सरकारी नौकरी के आड़ में रूपेश हत्याकांड का मामला ठंडे बस्ते में न पड़ जाएं। इधर रूपेश के माता जी को नौकरी व आर्थिक सहयोग मिलने के बाद वाहवाही लूटने का होड़ मचा हुआ है । विधायक उमाशंकर अकेला यादव के समर्थक इसे विधायक के प्रयाश का नतीजा बता रहे है तो इधर भाजपाइयों इसे राजनीतिक दवाब का नतीजा बता रहे है। नौकरी व आर्थिक सहयोग देने की बात अपने ट्विटर हैंडल से बताया।

शांति एवं कदाचार मुक्त वातावरण में दूसरे दिन संपन्न हुआ मैट्रिक का परीक्षा

अपेम लाइव : गांवा
मोजाहिद अली

गावां प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय पिहरा में शांति एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुआ। दूसरे दिन मैट्रिक परीक्षा के लिए मध्य विद्यालय पिहरा में 184 छात्र–छात्राओं में से 180 छात्र–छात्राएं उपस्थित हुए। मध्य विद्यालय पिहरा के परीक्षा केंद्र अधीक्षक विनय कुमार ने बताया कि हमारे विद्यालय में मैट्रिक परीक्षा का सेंटर पहली बार आया है। शांति एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न हो रहा है, हमारे सहयोगी वीक्षक अच्छे ढंग से परीक्षा करवा रहे हैं और पुलिस बल के जवानों के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है। मौके पर उपस्थित बीईओ प्रभाकर कुमार ने बताया कि शांति एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा चल रहा है। सभी विद्यार्थी को समय पर आना है और समय अनुसार परीक्षा करवाई जा रही है। मौके पर सहयोगी वीक्षक कुमार , सुजीत कुमार, मनोज कुमार ,सिराज उद्दीन वीरेंद्र कुमार ,महेंद्र चौधरी, कुलेश्वर साहू, विकास इंद्रदेव कुमार, सहयोग कर्मी राजमणि पांडे एवं आदेश पालक राम कुमार आर्यन आदि उपस्थित थे।

डेस्क प्रभारीः बिरेन्द्र कुमार सहयोगीः सोनू पंडित एडिटरः सोनू पंडित मैनेजिंग डायरेक्टरः डॉ० अनिल कुमार

दिनांकः 07-04-2022

सच का साथी

अपेम लाइव न्यूज

बरही से प्रकाशित एवं संचालित डिजीटल न्यूजपेपर

पेज संः 06

तैलिक साहू सभा ने की चार सूत्री मांग झारखंड सरकार से

अपेम लाइव : गिरिडीह/ टाउन आदित्य पांडेय

झारखंड राज्य में भी छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर तेल घाणी बोर्डका गठन जल्द से जल्द हो– जिला तैलिक साहू सभा गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा साहू समाज भवन हुट्टी बाजार गिरिडीह में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया प्रेस वार्ता को जिला अध्यक्ष श्री बाल गो. विंद साहू (अधिवक्ता) तथा महासचिव धर्म प्रकाश ने संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि दानवीर भामाशाह ने देश को मुगलों से बचाने के लिए महाराणा प्रताप को अपना समस्त धनसंपदा दान कर दिया। ऐसे महान विभूति की जयंती 23 अप्रैल को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। तेल का व्यापार साहू समाज के लोगों का पुश्तैनी व्यापार है, लेकिन वर्तमान समय में यह व्यापार हाशिए पर है झारखंड राज्य में हमारी आबादी भी अधिक है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के तर्ज पर झारखंड राज्य में भी तेल घाणी बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि यह व्यापार पुनः जीवित हो सके। तैलिक साहू समाज के महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि मंडल कमीशन के तहत पूरे देश में 27ः आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड राज्य में 56ः आबादी होने के बावजूद 27ः आरक्षण को कम कर 14ः कर दिया गया। जो संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसलिए गिरीडीह जिला तैलिक साहू सभा राज्य सरकार से मांग करती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27ः आरक्षण दिया जाए । विगत वर्षों में कोरोना महामारी के कारण लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। सभी वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब हुई है। विशेषकर खुदरा व्यापारी वर्ग इसे काफी प्रभावित हुए हैं। कोरोना काल में सरकार के द्वारा जो भी राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, उसका लाभ खुदरा व्यापारी वर्ग को नहीं मिला इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि खुदरा व्यापारी वर्ग के लोगों का 1 लाख तक का बैंक ऋण माफ किया जाए। इस आशय का मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री झारखंड राज्य को भेजा जा रहा है। कार्यक्रम में वरीय उपाध्यक्ष शुकदेव प्रसाद साहू, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, संगठन सचिव देवेंद्र कुमार गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ के संयोजिका सुि. चता देवी, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, कोर कमेटी सदस्य देवराज, कार्यकारिणी सदस्य अजीत कुमार सोनू, सीताराम साहू , श्याम सुंदर गुप्ता, नि. रंजन साहू आदि उपस्थित थे।

भारी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने वाला कच्चा स्प्रिट बरामद

अवैध शराब कारोबारियों के लिए एक बड़ा झटका

अपेम लाइव : बिरनी सब्बा अहमद

बिरनी थाना क्षेत्र के जोरासाख से बरमसिया मुख्य मार्ग अरारी मे बुधवार रात लगभग 2 बजे गुप्त सूचना के आधार पर 12चक्का ट्रक संख्या डच 09 भ्ळ 4270 में लगभग 20 लाख का अवैध शराब का जखीरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम के अगुवाई में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि अवैध शराब का धंधा हजारीबाग जिला से चकाई होते हुए बिहार के जमुई जिला में भेजा जाता है। बिहार में शराब बंदी के कारण वहां शराब बेचना गैरकानूनी है। लेकिन इस तरह के अवैध धंधे कारोबारी को मोटी रकम का फायदा होता है। जिसके कारण यह अवैध धंधा पूरा फल फूल रहा है। एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में सूचना को सत्यापित करने के क्रम में गाड़ी संख्या MP 09 HG 4270 में अवैध शराब हजारीबाग से बिरनी प्रखण्ड होते हुए बिहार के जमुई जिला भेजा जा रहा है। जिसकी पड़ताल हेतु इन्स्पे. क्टर दिनेश सिंह , बिरनी थाना प्रभारी अमरजीत सिंह, सब इंस्पेक्टर मुकेश दयाल सिंह, ASI बिपिन सिंह,चालक आरक्षी रणधीर कुमार सिंह, हवलदार सुखलाल मुर्मू, चूंडा मुर्मू समेत पुलिस बल जोरासाख जहां से तीन रास्ता जमुआ, गिरीडीह व बरहमसिया के लिए रास्ता निकलता है। रात के लगभग 2 बजे उक्त गाड़ी को रोकने के बाद चालक द्वारा गाड़ी में लकड़ी से बना पटरे होने की बात कही गई। लेकिन जांच करने के बाद उसमें शराब पाया गया। गाड़ी में भारी मात्रा में शराब लोड होने के कारण उसे अग्रेतर करवाई के लिए बिरनी थाना ले आया गया। जहां मामले को दर्ज कर आगे की करवाई के लिए गिरीडीह जिला भेज दिया गया। इस छापामारी में चालक रवि कुमार जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ज्ञात हो कि गाड़ी में अवैध शराब की 510 पेटी बरामद किया गया जिसका मार्किट वेल्यू लगभग 20 लाख है। जिसमें इम्पीरियल ब्लू, मेगडोवेल्स, नामक कंपनी का जिसमें अरुणाचल प्रदेश का मार्का लगा हुआ है स

सहायक थाना डाडी कला में रामनवमी व रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक

अपेम लाइव : बड़कागांव अमित मालाकार

शांति समिति की बैठक में शामिल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी एवं अन्य

बड़कागांव सहायक थाना डाडी कला में रामनवमी व रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता इंस्पे. क्टर श्याम चंद्र सिंह व संचालन डाडी कला थाना प्रभारी मनीलाल सिंह ने किया। बैठक में श्याम चंद्र सिंह ने सरकार के के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन को बतलाया और कहा कि जुलूस में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे, सामूहिक रूप से 1000 से अधिक लोग नहीं होंगे, मेले पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, साउंड और रिकॉर्डेड गाने पर प्रतिबंध, सभी अखाड़े को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जुलूस निकालने की अनुमति सुबह 6ः00 बजे से लेकर संध्या 6ः00 तक होगी। वहीं मौके पर उप. स्थित थाना प्रभारी मणिलाल सिंह ने कहा कि रामनवमी का पर्व आपसी भाईचारा एवं सौहार्द का पर्व है इसे शांतिपूर्वक मनाएं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले एवं माहौल को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन आपके साथ हमेशा खड़ी है। मौके पर मुख्य रूप से इस्पेक्टर श्याम चंद्र सिंह, थाना प्रभारी मणिलाल सिंह, एएसआई शिवनाथ यादव, खगन चंद्र महतो, मुखिया प्रतिनिधि मोहन महतो, चेपाकला मुखिया प्रतिनिधि शंकर भुइँया, कृष्णा राम, अनुज कुमार, समाज सेवी इलियास अन्सारी, पदुम साव, बलदेव महतो, उमेश साव, चेतलाल रजक, सुनील कुमार, शिवदयाल महतो, बालदेव महतो, रा. जेंद्र प्रसाद, राजेश कुमार यादव के अलावा दर्जनों लोग उपस्थित थे।

चैती छठ पर अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया अर्घ्य

अपेम लाइव : विष्णुगढ मिथिलेश गोल्डी

विष्णुगढ़ के जमुनियां नदी छठ घाट पर अर्घ्य देते छठव्रती

लोक आस्था और नेम निष्ठा का महापर्व चौती छठ को लेकर गुरूवार की अरु. ताचलगामी भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया गया। माथे पर सूप से सजा दौरा लेकर श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे। कई छठव्रती दंड देते हुए घाट तक पहुंची। इस बीच छठ गीतों से पूजा माहौल गूंजायमान रहा। विष्णुगढ़ के जमुनियां नदी छठ घाट समेत प्रखंड के विविध नदी, तालाब के घाटो पर छठव्रतियों ने अर्घ्य देकर अस्ताचलगामी सूर्य से सुखमय जीवन, समृद्धि, उन्नति की मंगल कामना की। अर्घ्य के दौरा वाले सूप के साथ प्रसाद स्वरूप ठेकुआ, ईख, नारियल, सेव समेत विविध फलों से सजा था। कार्तिक छठ की अपेक्षा चौती छठ महापर्व की उपा. सना काफी कम संख्या में छठव्रती करते हैं। इसके बा. वजूद अर्घ्य धारण करने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ घाटों पर पहुंचे। बीते बुधवार को छठ का खरना का प्रसाद पाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग छठव्रतियों के घर पहुंचे और खीर का प्रसाद ग्रहण किया। शुक्रवार को उदीयमान सूर्य के अर्घ्य के साथ पारण के पश्चात चौती छठ महापर्व का समापन हो जाएगा।

नासिक से मजदूर का शव पहुंचते हीं गमगीन हुआ माहौल

अपेम लाइव : विष्णुगढ मिथिलेश गोल्डी

शव के पहुंचने के बाद मृतक के परिजन को सांत्वना देते जिप सदस्य समेत अन्य

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के नासिक में दुर्घटना का शिकार हुए प्रखंड के बादी खरना चलनियां निवासी मजदूर नाथो सिंह गुरूवार को पैतृक गांव पहुंचा। एंबुलेंस से शव पहुंचते हीं माहौल गमगीन हो गया। परिजनों के हृदय विदारक चीत्कार से वहां पहुंचे सभी लोगों की आंखे नम हो गई। मृतक की पत्नी ललिता देवी रोते–रोते बार–बार अचेत हो जा रही थी। अपने पति के खोने के गम में वह लगातार बद. हवास होकर रोते जा रही थी। उसका करूण बिलाप सुन लोग भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। मजदूर का शव सभी ग्रामीण उसके घर के तरफ दौड़ पड़े। मृतक नाथो सिंह के अनाथ हुए तीनों बेटियां गोलकी कुमारी (16), रूपी कुमारी, बुधनी कुमारी (09) मृत पिता के शव के पास लगातार बिलख रही थी। वहीं, दो साल का मासूम बेटा शिवज सिंह मां और बहनां को रोते देखकर समझ नही पा रहा था कि मेरा पिता का साया सर से उठ चुका है। शव के पहुंचते हीं मध्य जिप सदस्य यशोदा देवी, समाजसेवी गिरिजा साव समेत कई लोग पहुंचे और परिजनों को ढ़ाढ़स देते हुए उचित सहायता का आश्वासन दिया। बताया जाता है कि वे एक साल पूर्व काम करने के लिए नासिक गए थे। उन्हीं की कमाई से परिवार का पालन–पोषण होता था। गांव वालों को घटना की सूचना मिलते हीं कई लोग उनके परिजनों को ढ़ाढ़स देने पहुंचे। घटना को लेकर प्रवासी मजदूरस. वी सिकंदर अली ने भी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कंपनी से मृतक के आश्रित को उचित मुआवजा देने की मांग की है। कहा है कि रोजगार के अभाव में इलाके के कई मजदूर अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं। राज्य समृद्ध होकर भी यहां के निवासी गरीब हैं। सरकार को इसका हल निकालना चाहिए। इलाके से मजदूरों का पालन रोकने के लिए आवश्यक उद्योग–धंधों की व्यवस्था करनी चाहिए।

APEM LIVE

डेस्क प्रभारीः बिरेन्द्र कुमार सहयोगीः सोनू पंडित एडिटरः सोनू पंडित मैनेजिंग डायरेक्टरः डॉ० अनिल कुमार